

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019—माघ 30, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2019

क्र. 2120-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१९

## मध्यप्रदेश विनियोग ( लेखानुदान ) विधेयक, २०१९

वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने के लिये प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८,९४,३८,६५,६७,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नवासी हजार चार सौ अड़तीस करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	५४,३०,२१,९६,०००	५४,३०,२१,९६,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	५९,२१,३३,६३,०००	५९,२१,३३,६३,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२,३८,०४,०८,०००	२८,७५,६०,०००	२,६६,७९,६८,०००
		पूंजी	३४,१०,४४,०००	०	३४,१०,४४,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३२,७०,८६,०००	०	३२,७०,८६,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	२७,२५,४१,८८,०००	६०,८०,०००	२७,२६,०२,६८,०००
		पूंजी	२,८४,८०,६६,०००	०	२,८४,८०,६६,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३०,९६,४७,०००	०	३०,९६,४७,०००
		पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५. जेल	राजस्व	१,६५,७८,४१,०००	०	१,६५,७८,४१,०००
	पूंजी	८,२६,८०,०००	०	८,२६,८०,०००
०६. वित्त	राजस्व	५८,३५,०२,६२,०००	१०,१०,५४,०००	५८,४५,१३,१६,०००
	पूंजी	७६,२८,०३,०००	०	७६,२८,०३,०००
०७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	१०,८१,३९,७९,०००	०	१०,८१,३९,७९,०००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	७,५०,१२,५५,०००	८३,४१,०००	७,५०,९५,९६,०००
	पूंजी	५२,८०,०३,०००	०	५२,८०,०३,०००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२३,२४,७३,०००	०	२३,२४,७३,०००
	पूंजी	३,६०,००,०००	०	३,६०,००,०००
१०. वन	राजस्व	७,५४,९५,७०,०००	३६,००,०००	७,५५,३१,७०,०००
	पूंजी	२,६१,५६,२७,०००	०	२,६१,५६,२७,०००
११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	९३,१०,९६,०००	०	९३,१०,९६,०००
	पूंजी	२,५१,०९,६४,०००	०	२,५१,०९,६४,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	४९,४१,०९,०५,०००	२,८८,८०,००,०००	५२,२९,८९,०५,०००
	पूंजी	१०,७९,२६,८१,०००	०	१०,७९,२६,८१,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	६१,३६,७०,३२,०००	८,००,०००	६१,३६,७८,३२,०००
	पूंजी	१,०००	०	१,०००
१४. पशुपालन	राजस्व	४,६८,४०,९६,०००	४,००,०००	४,६८,४४,९६,०००
	पूंजी	७,४०,०१,०००	०	७,४०,०१,०००
१५. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	२,०००	०	२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३८,१८,३०,०००	०	३८,१८,३०,०००
	पूंजी	४६,००,०००	०	४६,००,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	३,०८,६६,५६,०००	०	३,०८,६६,५६,०००
	पूंजी	८,५६,२५,८२,०००	०	८,५६,२५,८२,०००
१८. श्रम	राजस्व	३,७०,६७,८८,०००	१,०५,०००	३,७०,६८,९३,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२५,८८,६६,६८,०००	१०,००,०००	२५,८८,७६,६८,०००
	पूंजी	१,१२,७२,४५,०००	०	१,१२,७२,४५,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	२,१९,२८,८१,०००	४०,००,०००	२,१९,६८,८१,०००
	पूंजी	१०,८१,९५,७५,०००	०	१०,८१,९५,७५,०००
२१. लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	३२,३६,४१,०००	०	३२,३६,४१,०००
	पूंजी	८०,००,०००	०	८०,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२३,९४,९०,७२,०००	२०,००,०००	२३,९५,१०,७२,०००
	पूंजी	५,२७,५०,९५,०००	६,००,००,०००	५,३३,५०,९५,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	४,०१,४९,१५,०००	०	४,०१,४९,१५,०००
	पूंजी	२१,६०,६६,५३,०००	४४,००,०००	२१,६१,१०,५३,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	५,०५,९४,३९,०००	०	५,०५,९४,३९,०००
	पूंजी	२६,७१,८७,६७,०००	१,२०,००,००,०००	२७,९१,८७,६७,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१८,४७,६८,०००	१,३०,०२,००,०००	१,४८,४९,६८,०००
	पूंजी	३,४०,००,०००	०	३,४०,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	७४,८७,६०,०००	४०,०००	७४,८८,००,०००
	पूंजी	१९,०८,०३,०००	०	१९,०८,०३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	५९,६३,९८,४२,०००	०	५९,६३,९८,४२,०००
	पूंजी	१,६५,७२,०८,०००	०	१,६५,७२,०८,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	३९,११,५६,०००	२४,९०,०००	३९,३६,४६,०००
	पूंजी			
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	५,९८,१६,०४,०००	७१,२५,९५,०००	६,६९,४१,९९,०००
	पूंजी	६८,४४,००,०००	०	६८,४४,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	४,४६,१७,०४,०००	०	४,४६,१७,०४,०००
	पूंजी	९,९५,००,०५,०००	०	९,९५,००,०५,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	३३,२८,५५,०००	०	३३,२८,५५,०००
	पूंजी	६०,६८,००,०००	०	६०,६८,००,०००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१,५५,२६,००,०००	४,०००	१,५५,२६,०४,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	२४,२७,९२,१७,०००	२,२०,०००	२४,२७,९४,३७,०००
	पूंजी	४,९१,८०,०१,०००	०	४,९१,८०,०१,०००
३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	राजस्व	४,३२,८५,६६,०००	०	४,३२,८५,६६,०००
	पूंजी			
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	३,०१,१८,६२,०००	०	३,०१,१८,६२,०००
	पूंजी	३३,४०,०४,०००	०	३३,४०,०४,०००
३६. परिवहन	राजस्व	३६,६९,३६,०००	०	३६,६९,३६,०००
	पूंजी	८,००,०१,०००	०	८,००,०१,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	५३,२६,०६,०००	०	५३,२६,०६,०००
	पूंजी	३२,४०,०२,०००	०	३२,४०,०२,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३८.	आयुष	राजस्व पूंजी	१,८४,१२,८४,००० ९,२८,०१,०००	४,००,००० ०	१,८४,१६,८४,००० ९,२८,०१,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व पूंजी	६,७०,७०,१७,००० १,१६,०५,०००	४४,००० ०	६,७०,७०,६१,००० १,१६,०५,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व पूंजी	१२,५९,११,४२,००० १,४५,५०,३९,०००	१२,००,००० ०	१२,५९,२३,४२,००० १,४५,५०,३९,०००
४१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	१,०००	०	१,०००
४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राजस्व पूंजी	४७,५८,९१,००० ७,५९,६२,०००	१,००० ०	४७,५८,९२,००० ७,५९,६२,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व पूंजी	६१,५१,२९,००० २३,६३,७४,०००	२,००,००० ०	६१,५३,२९,००० २३,६३,७४,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व पूंजी	७,७५,२२,७२,००० १,७२,३४,४२,०००	४,००,००० ०	७,७५,२६,७२,००० १,७२,३४,४२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व पूंजी	७६,४१,३०,००० ८६,४५,३९,०००	० ४,००,०००	७६,४१,३०,००० ८६,४९,३९,०००
४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व पूंजी	८०,५८,२२,००० २४,४०,०२,०००	० ०	८०,५८,२२,००० २४,४०,०२,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व पूंजी	५,३०,९३,२५,००० १,३८,८०,०३,०००	० ०	५,३०,९३,२५,००० १,३८,८०,०३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व ७,३१,३१,००० पूँजी १३,९९,६३,४८,०००	० १४,००,०००	७,३१,३१,००० १३,९९,७७,४८,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व ४,७७,६१,६९,००० पूँजी ६७,७६,०४,०००	४,००,००० ०	४,७७,६५,६९,००० ६७,७६,०४,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ३,०१,०५,७७,०००	०	३,०१,०५,७७,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व ३६,३३,४६,००० पूँजी ४,००,००,०००	२०,००० ०	३६,३३,६६,००० ४,००,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ५,३७,८९,४८,००० पूँजी ३,८५,१६,३०,०००	० ०	५,३७,८९,४८,००० ३,८५,१६,३०,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ९८,७३,९४,०४,००० पूँजी ५४,७२,०१,००	० ०	९८,७३,९४,०४,००० ५४,७२,०१,००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व ६५,५५,२४,०००	०	६५,५५,२४,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व २०,२७,८०,०४,००० पूँजी ५२,२०,८५,०००	६,००,००० ०	२०,२७,८६,०४,००० ५२,२०,८५,०००
५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व ८१,०१,२३,००० पूँजी ८०,५६,०००	० ०	८१,०१,२३,००० ८०,५६,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूँजी १,०००	०	१,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ८,२३,०६,०९,००० पूँजी १,२०,००,०००	० ०	८,२३,०६,०९,००० १,२०,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	५,६०,००,००,०००	०	५,६०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	राजस्व	१७,८६,००,०००	०	१७,८६,००,०००
		पूंजी	१,२२,७२,९६,०००	०	१,२२,७२,९६,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	१,०९,२८,०००	०	१,०९,२८,०००
		पूंजी	१०,०००	०	१०,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	८४,६१,८५,०००	०	८४,६१,८५,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	९,४३,४०,०००	०	९,४३,४०,०००
		पूंजी	२,४०,००,०००	०	२,४०,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२९,७३,५९,०२,०००	२,४०,८६,८०,०००	३२,१४,४५,८२,०००
		पूंजी	२२,८६,९२,०००	०	२२,८६,९२,०००
६५.	विमानन	राजस्व	१३,७६,५८,०००	०	१३,७६,५८,०००
		पूंजी	२०,०२,०००	०	२०,०२,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	३,१२,८६,८८,०००	०	३,१२,८६,८८,०००
		पूंजी	१०,६९,६२,०००	०	१०,६९,६२,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	२,७४,७७,८४,०००	१,२०,००,०००	२,७५,९७,८४,०००
		पूंजी	७०,८४,०३,०००	०	७०,८४,०३,०००
६८.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१,१८,९३,३८,०००	०	१,१८,९३,३८,०००
६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व	११,१७,५१,०००	०	११,१७,५१,०००
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००



(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७०. प्रवासी भारतीय	राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००
७१. पर्यावरण	राजस्व	१४,१४,७६,०००	०	१४,१४,७६,०००
	पूंजी	४०,००,०००	०	४०,००,०००
७२. आनंद	राजस्व	२,०००	०	२,०००
	योग { राजस्व :	६,२४,६८,८७,०६,०००	६२,०४,४६,३०,०००	६,८६,७३,३३,३६,०००
	{ पूंजी :	१,४७,१७,३६,६८,०००	६०,४७,९५,६३,०००	२,०७,६५,३२,३१,०००
	वृहद्-योग :	७,७१,८६,२३,७४,०००	१,२२,५२,४१,९३,०००	८,९४,३८,६५,६७,०००

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०६ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग को प्राधिकृत करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के भाग के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के प्राक्कलित व्यय की बावत विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख १७ फरवरी, २०१९.

तरुण भनोत  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.